

Sone khap Gujji to Pachadhi

Schedule XLV-Form No. 134

M/s Maa Komali Const

DIVISION

Sherghati

SUB-DIVISION

Measurement Book

1172

Continuation

1. लेखा 1, स्तम्भ 8 प्रविष्टि (क) के अनुसार वस्तुतः मापे गए निर्माण का मूल्य	रु०	पै०
2. लेखा 1, स्तम्भ 3 प्रविष्टि (ख) के अनुसार, "अवतक कुल" अर्थात् जो माप गए निर्माण के लिए दिया गया		
3. कुल (मद 1+2)		
4. घटायें- रोक रखी गयी रकम		
निर्माण-सार के लिए आँकड़े		
(क) पिछले चलता लेखा बिल के अनुसार पिछले बिल से	रु०	पै०
(ख) इस बिल से		
5. रोप अर्थात् "अवतक" सुगमन (मद 3-4)		
6. पिछले चलता लेखा बिल से		
7. नौबे लिखे गए चारों के अनुसार भुगतान करा है		
(क) (इस निर्माण में आकलनीय रकमों की वसूली द्वारा)	रु०	पै०
कुल (क + 7ख) (छ)		
अन्य निर्माण या लेखा-शीर्षकों में आकलनीय रकमों की वसूली द्वारा		
(ख) चेक द्वारा		
कुल 7ख + (ग) (घ)		
कुल	रु०	पै०
संवितरण पदाधिकारी का तारीख सहित हस्ताक्षर		
इस निर्माण में उपर्युक्त सलेखा के अनुसार	रु०	पै०
तारीख सहित	200	
मैंने चेक संख्या	ता०	द्वारा भुगतान किया।
वस्तुतः भुगतान करनेवाले पदाधिकारी का तारीख सहित हस्ताक्षर		
4 अभ्युक्ति।		
यह जगह ऐसे अभ्युक्तियों के लिए है जो संवितरण पदाधिकारी या कार्यपालक अभियंता निर्माण के निष्पादन मापों की जांच अथवा ठीकेदारों के लेखों की स्थिति के बारे में देना चाहें।		

* इस आँकड़े की जाँच देखने के लिए की जाए कि यह अब 6 और 7 से मिलता तो है।
 * यदि दो जानेवाली शुद्ध रकम 10 रु० से कम हो तो चेक में शामिल नहीं की जा सकती है, उसका भुगतान नकद करें और तदनुसार इस प्रविष्टि को सुधार दें। और उस सुधार की तारीख सहित हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें।
 यह मद 7 (ख) के अनुसार देय शुद्ध रकम का उल्लेख करें।

- प्रापकता से पावती मद-7 (अर्थात् क+ख+ग) के अनुसार इसकी दो गई रकम के लिए लिखाई जाए।
- जब प्रापकता चिह्न, मुहर या अंगूठे के निशान से पावती आँकृत करें तक भुगतान का सत्यापन किसी परिचित व्यक्ति से करा लेना चाहिए।

(अंतिम भुगतान चले कागज पर छपे फारम पर किए जाएं और उसका उपयोग-मध्यवर्ती भुगतानों में न किया जाय)

चलता लेखा बिल "क"

(ठीकेदार के लिए :- यह फारम अंतिम भुगतान तथा मापे गये निर्माण में भुगतान के लिए है।)

रोकड़ बही भाउचर सं० तारीख
 ठीकेदार का नाम : **M/s Maa Komali Construction, A.P Colony, Gurgaon**
 निर्माण का नाम- **Paintee Work under MR 30544th 2 Sonekhop Chingji Kallio**
 इस बिल की क्रम संख्या - **100** तारीख **20.02.2020**
 इस निर्माण के पिछले बिल की संख्या और तारीख
 कारागार का निर्माण सं० **SSD** सं० **20.02.2020**
 काम शुरू करने के तिथि-आरंभ की तारीख- **03-02-2020**
 निर्माण वस्तुतः पूरा होने की तारीख - **04-02-2020**
 यदि किए गए निर्माण का लेखा

ऐसे निर्माण के लिए भुगतान जिसका मापन यकीन है।		निर्माण की मर (प्राक्कलन के "अपेक्षित" और उनके निर्माण के "अनुसार वर्गीकृत")		माप वही के अनुसार अथवा निर्माणाधीन मात्र		वास्तविक माप के आधार पर किए गए भुगतान		अभ्युक्ति (स्तम्भ) में दिखाए गए भुगतानों के समायोजन में हुए विलम्ब के कारण सहित	
पिछले बिल के अनुसार कुल जोड़	पिछले बिल के घटा	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1. C/A of Gm by of 1222				1222	0.458	22685			
2. C/A of Subgrade earth Sheds				126.81	1110.0	1,76,259			
3. C/A of Gm by Sub grade by Paved				1443	9095.38	13,86,80			
4. Paved by Spred by Gm by Sheds				2369.45	58.32	13,34,42			
5. Paved by Spred by Stone M/H by Gm				2235.68	244.10	55,69,95			
6. Paved by Spred by Apply Paved by Sheds				41.04	334.33	13,63,23			
7. Paved by Spred by Tare by Sheds				13.92	868.73	12,08,50			
8. Paved by Spred by Semi class by Sheds				8248.66	213.14	12,90,289			
9. R.C.C M/S Paved by Stone M/H by Gm				1950.43	4	7802			
10. R.C.C M/S Paved by Stone M/H by Gm				576.76	9	57,86			
11. Paved by Spred by Repaired				3522.22	14	49,89,62			
अग्रणीत						4,31,57,392			

- * जहाँ स्तम्भ 9 में वास्तविक माप के आधार पर कोई प्रविष्टि की जाय वहाँ संवितरण माप के बिना ही पहले चुकायी गई पूरी रकम को स्तम्भ 2 में से स्तम्भ 1 की रकम के बराबर की राशि घटाकर समायोजित कर लिया जाय ताकि "स्तम्भ 3" में दिखा गया "अवतक कुल" शून्य हो जाय।
- * जब प्रत्येक प्राक्कलन या उपशीर्षक के सम्बन्ध में स्तम्भ 9 में दो या दो से अधिक प्रविष्टियाँ हो, तब ऐसे निर्माण की दशा में जिसका लेखा उपशीर्षकों में बाँटकर रखा जाता हो, उन प्रविष्टियों को जोड़कर योगफल स्तम्भ 10 में चढ़ा दिया जाय, ताकि "निर्माण सार" में दर्ज किया जा सकें।